



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1931 (श0)
(सं0 पटना 122) पटना, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी 2010

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अधिसूचना
5 मार्च 2009

सं. वि.प.अ.प्र.-25/09-597(1)/वि.प.—शेरशाह महाविद्यालय, सासाराम, रोहतास के विस्तारित भवन निर्माण के क्रम में जल संसाधन विकास विभाग, डिहरी प्रक्षेत्र के उच्चस्तरीय नहर के सर्विस रोड तथा चाट का अतिक्रमण कर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य श्री रामधनी सिंह एवं श्री हीरा प्रसाद बिन्द के 161वें सत्र की ध्यानाकर्षण सूचना पर दिनांक 26 फरवरी 2009 को सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य एवं कतिपय माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर से असंतुष्ट रहने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी अन्य उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ध्यानाकर्षण सूचना के बिन्दुओं और सरकार के उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं की जांच कर तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन देने हेतु निम्नांकित माननीय सदस्यों की एक विशेष समिति गठित करते हुए यह निदेश देने की कृपा की है कि समिति जांच बिन्दुओं का निर्धारण स्वयं करेगी।

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---------|
| (1) | श्री केदार नाथ पाण्डेय | - | अध्यक्ष |
| (2) | डा. रामवचन राय | - | सदस्य |
| (3) | श्री संजय कुमार सिंह | - | सदस्य |
| (4) | श्री जगन्नाथ राय | - | सदस्य |
| (5) | श्री मुन्द्रिका सिंह यादव | - | सदस्य |

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
मुंगेश्वर साहु. सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 122-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>